



कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी प्रेस नोट

दिनांक-30.07.2022

थाना सिगरा पुलिस टीम द्वारा वांछित अभियुक्त लायक अली उर्फ बन्टू गिरफ्तार कब्जे से चोरी के आभूषण बरामद

श्रीमान् पुलिस आयुक्त वाराणसी के वांछित/फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान् पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन के निर्देशन में एवं श्रीमान् सहायक पुलिस आयुक्त चेतगंज के पर्यवेक्षण में थाना सिगरा पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0-288/2022 धारा 380,411 भादवि से संबंधित वांछित अभियुक्त लायक अली उर्फ बन्टू पुत्र लियाकत अली नि0 सी15/115 लल्लापुरा थाना सिगरा वाराणसी को पौसरा मस्जिद के पास लल्लापुरा से आज दिनांक-30.07.22 को समय 10.40 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से चोरी के आभूषण 02 जोड़ी पायल सफेद धातु, 07 अदद अंगुठी सफेद धातु, 01 अदद चांद सफेद धातु, 01 अदद कान का टप्स सफेद धातु व 4.8 ग्राम दो टुकड़ों में पीली धातु बरामद किया गया। उक्त के सम्बन्ध में थाना सिगरा पुलिस द्वारा आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का विवरण-दिनांक 29.07.22 को वादी मुकदमा श्री इमरान आलम पुत्र अशरफ आलम निवासी म0नं0 C15/120-A लल्लापुरा थाना सिगरा जनद वाराणसी ने अभियुक्त लायक अली के द्वारा वादी की अलमारी में से तीस हजार रु0 नगद और कुछ आभूषण चोरी कर भाग जाने के सम्बन्ध में लिखित तहरीर दिया, जिसके आधार पर थाना सिगरा में मु0अ0सं0-288/2022 धारा 380 भादवि पंजीकृत कर, विवेचना उ0नि0 विकास कुमार द्वारा सम्पादित की जा रही है।



गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

लायक अली उर्फ बन्दू पुत्र लियाकत अली नि0 सी15/115 लल्लापुरा थाना सिगरा वाराणसी उम्र करीब 32 वर्ष ।

विवरण पूछताछ- अभियुक्त लायक अली उर्फ बन्दू ने पूछताछ करने पर बताया कि मुझे नशा करने की आदत है और महंगा कपडा व जुता पहने का शौक भी है । जब नशा व अपने शौक पुरा करने के लिये मेरे पास पैसा नही रहता है तो मैं अपने मोहल्ले तथा आस-पास के मोहल्लों में चोरी कर लेता हूँ और चोरी के दौरान मिले माल को औने-पौने दाम पर बेच कर अपने शौक को पूरा करता हूँ । यह सभी आभूषण जो मेरे पास से बरामद हुआ है यह मैंने दिनांक-17.07.2022 को इमरान अली के घर से दूसरी चाभी बनवाकर चुराया था, जिसमे से कान की बाली व एक अगूठी को गला दिया गया है, जिसका टुकड़ा मेरे पास से बरामद समान के साथ ही है । आज मैं ये सब बेचने की फिराक मे था कि आप लोगों द्वारा पकड़ लिया गया ।

बरामदगी का विवरण- चोरी के आभूषण 02 जोडी पायल सफेद धातु,07 अदद अंगुठी सफेद धातु ,01 अदद चांद सफेद धातु ,01 अदद कान का टप्स सफेद धातु व 4.8 ग्राम दो टुकड़ो मे पीली धातु बरामद ।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

- 1.उ0नि0 विकास कुमार थाना सिगरा कमिश्नरेट वाराणसी ।
- 2.का0 अमरेन्द्र कुमार थाना सिगरा कमिश्नरेट वाराणसी ।
- 3.का0 शेषनाथ तिवारी थाना सिगरा कमिश्नरेट वाराणसी ।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त
वरुणा जोन, कमिश्नरेट वाराणसी